

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, गुरुवार दिनांक 10 जनवरी 2019—पौष 20, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2019 (पौष 20, 1940)

क्र. 378-म. प्र. वि.स. 15-विधान-2019.—मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की जाती है :—

“सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य, विधान सभा, दिनांक 10 जनवरी, 2019 को मध्यप्रदेश विधान सभा की उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई तथा उक्त दिनांक को उक्त पद का कार्यभार संभाल लिया है.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.